



जागरण

वेरका के जाली स्टिकर लगा कर बेचते थे नकली घी, बाप-बेटा गिरफ्तार

Publish Date: Tue, 11 Dec 2018 10:53 PM (IST)

जासं, बंठडा : बंठडा में वेरका का जाली स्टिकर लगा कर नकली घी बेचने का मामला सामने आया है। इस संबंध में बंठडा सीआइए एक के सब इंस्पेक्टर हरजीवन "सह द्वारा थाना कैंट में लुधियाना वासी आरोपित पिता-पुत्र पर मामला दर्ज किया है। सीआइए एक के सब इंस्पेक्टर हरजीवन "सह ने बताया कि उनको सूचना मिली कि लुधियाना निवासी बाप-बेटा बंठडा, मानसा, फिरोजपुर व पंजाब के अन्य शहरों में वेरका लुधियाना का जाली स्टिकर लगा कर नकली देसी घी बेचते हैं। इस पर उन्होंने आरोपितों से 15-15 किलोग्राम के 16 टिन बरामद किए हैं। सेहत विभाग द्वारा बरामद किए गए नकली देसी घी के सैंपल लेकर जांच के लिए लैबोर्ट्री में भेज दिए हैं।

एसआइ हरजीवन "सह ने बताया कि लुधियाना के हिम्मत सिंह नगर दुगरी के रहने वाले आरोपित सुमन कुमार व उसका बेटा लक्ष्य पिछले तीन-चार माह से नकली देसी घी तैयार करने और बेचने का काम कर रहे थे। पूछताछ में आरोपितों ने इस बात को कबूल किया है। आरोपितों से बंठडा में गाड़ी से 16 टिन नकली देसी घी के साथ गिरफ्तार किया है। उसने पूछताछ में बताया कि वह लुधियाना के गांव सर्रीह में नकली घी तैयार करता है। वहां पर उसको साथ लेकर जाकर चेंकग की गई तो वहां से वेरका के रैपर, राँ मटीरियल, खाली टिन आदि बरामद किए हैं। आरोपित बाप-बेटे ने एक साल पहले लुधियाना में कुंकग मीडियम की फैक्ट्री लगाई थी और वहां पर वनस्पति घी तैयार करता था लेकिन उनकी फैक्ट्री फेल हो गई। इसके बाद उसने नकली घी तैयार करने का काम शुरू कर दिया। एसआइ हरजीवन "सह ने बताया कि आरोपित बाप-बेटे रिफाइंड व कुंकग मीडियम से नकली देसी घी तैयार करते थे। नकली घी में देसी घी की खुशबू लाने के लिए व परफ्यूम का इस्तेमाल करते थे।

Posted By: **Jagran**

Source: <https://www.jagran.com/punjab/bhatinda-fake-verka-ghee-recovered-father-and-son-arrest-18739699.html>